

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अप्रैल 2014— चैत्र 14, शक 1936

## भाग २

### स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा

#### मध्यप्रदेश

आगर-मालवा, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. 25.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर, आगर-मालवा नगरपालिका परिषद् आगर-मालवा, जिला आगर-मालवा के वार्डों का विस्तार नीचे दर्शायी अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता हूँ :—

#### अनुसूची

#### वार्डों की सीमा का विवरण

| वार्ड क्रमांक | वार्डों का नाम           |
|---------------|--------------------------|
| (1)           | (2)                      |
| 1             | संजय गांधी वार्ड         |
| 2             | लालबहादुर शास्त्री वार्ड |
| 3             | जयप्रकाश नारायण वार्ड    |
| 4             | चन्द्रशेखर आजाद वार्ड    |
| 5             | रफी एहमद किदवर्झी वार्ड  |

| (1) | (2)                          |
|-----|------------------------------|
| 6   | स्वामी विवेकानन्द वार्ड      |
| 7   | ज्योतिबा फुले वार्ड          |
| 8   | जवाहरलाल नेहरू वार्ड         |
| 9   | डॉ. जाकिर हुसेन वार्ड        |
| 10  | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड   |
| 11  | सरदार भगतसिंह वार्ड          |
| 12  | डॉ. अम्बेडकर वार्ड           |
| 13  | सरदार बल्लभभाई पटेल वार्ड    |
| 14  | मौलाना आजाद वार्ड            |
| 15  | नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड |
| 16  | महात्मा गांधी वार्ड          |
| 17  | गणेशदत्त शर्मा इन्द्र वार्ड  |
| 18  | इंदिरा गांधी वार्ड           |
| 19  | राजीव गांधी वार्ड            |
| 20  | खुदीराम बोस वार्ड            |
| 21  | रानी लक्ष्मीबाई वार्ड        |
| 22  | तात्याटोपे वार्ड             |
| 23  | वीर शिवाजी वार्ड             |

**बाड़ों का परिसीमन (वर्ष 2013-14)**  
**नगरपालिका क्षेत्र आगर-मालवा (म. प्र.)**  
**प्रस्तावित बाड़ों की चर्तुसीमा**

**वार्ड नं. 01—संजय गांधी वार्ड**

उत्तर—बड़ौद रोड पर निर्माणाधीन शिखर होम कालोनी से न. पा. नाका दुकान.

**पूर्व**—न. पा. नाका दुकान से आबिदखां का मकान सम्मिलित करते हुये दरगाह के पास से जीमल भाई ड्रायवर के मकान तक.

**दक्षिण**—जमिल भाई ड्रायवर के मकान से कुण्डीखेड़ा रोड होते हुए संस्कार स्कूल के आसपास के सभी मकान को लेते हुये नाथूलाल गवली के मकान तक.

**पश्चिम**—नाथूलाल गवली के मकान से बड़ौद रोड पर निर्माणाधीन शिखर होम कॉलोनी.

**वार्ड नं. 02—लालबहादुर शास्त्री वार्ड**

उत्तर—बड़ौद रोड उस्मानखां ड्रायवर के मकान से बड़ौद चौराहा पर संतोश राठोर की होटल तक.

**पूर्व**—संतोश राठोर की होटल से उज्जैन कोटा रोड से यश मेडिकल तक.

**दक्षिण**—यश मेडिकल से भोला सेठ के आईलमिल के आसपास के मकानों को सम्मिलित करते हुये हनीफखां छोटेखां के मकान तक.

**पश्चिम**—हनीफखां छोटेखां के मकान से दरगाह के सामने होते हुए उस्मान खां ड्रायवर के मकान तक.

**वार्ड नं. 03—जयप्रकाश नारायण वार्ड**

उत्तर—कुड़ीखेड़ा रोड सोनीजी के मकान से बसस्टेण्ड मेन रोड पर राठोर की होटल तक.

**पूर्व**—राठोर की होटल से उज्जैन रोड पर ट्रेचिंग ग्राउण्ड तक.

**दक्षिण**—ट्रेचिंग ग्राउण्ड से आवर रोड पर निर्माणाधीन सुंदरम कालोनी तक.

**पश्चिम**—आवर में निर्माणाधीन सुंदरम कालोनी से कुण्डीखेड़ा रोड पर सोनीजी के मकान तक.

**वार्ड नं. 04—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड**

उत्तर—न. पा. लालगढ़े की दुकान से मुर्गीघर सब्जी मण्डी हरिजनपुरा को सम्मिलित करते हुए गवलीपुरा पुलिया तक.

**पूर्व**—गवलीपुरा पुलिया से ऊपर की बस्ती होते हुये बड़ौद दरवाजा तक.

**दक्षिण**—बड़ौद दरवाजा से कन्या शाला रोड के सामने होते हुए ईदगाह रोड पानी की टंकी तक.

**पश्चिम**—पानी की टंकी से न. पा. लाल गढ़े की दुकान तक.

**वार्ड नं. 05—रफी एहमद किदवई वार्ड**

उत्तर—उज्जैन रोड डाक्टर भावसार के मकान से कन्या शाला होते हुये माधवगंज बड़ौद दरवाजा तक.

**पूर्व**—बड़ौद दरवाजा से कबाड़ा टंकी कम्पाउण्ड को सम्मिलित करते हुए कमलकुण्डी तक.

**दक्षिण**—कमलकुण्डी से भाम होते हुए उज्जैन रोड, मिड-वे भोजनालय तक.

**पश्चिम**—मिड-वे भोजनालय से ईदगाह के सामने डाक्टर भावसार के मकान तक.

**वार्ड नं. 06—स्वामी विवेकानन्द वार्ड**

उत्तर—शर्मा मेडिकल से भीलपुरा रोड होते हुए दक्षिण मकान मस्जिद गली के पश्चिमी मकान तथा मस्जिद के कार्नर से गोपीलाल (हंसु का पुराना मकान) तक.

**पूर्व**—गोपीलाल (हंसु का पुराना मकान) से पूर्वी ओर के मकानों का सम्मिलित करते हुए कटारिया की दुकान को हनुमान गढ़ी रोड, पुरानी सब्जी मंडी रोड, दक्षिण क्षेत्र तेजाजी पान से सत्यानारायण गली के पश्चिमी क्षेत्र लेते हुए उज्जैन दरवाजा अमजदखां के मकान तक.

**दक्षिण**—उज्जैन दरवाजा अमजद के मकान से सम्पूर्ण तालाब को सम्मिलित करते हुए वाटरवर्क्स तक.

**पश्चिम**—वाटरवर्क्स से गौशाला को सम्मिलित करते हुए शर्मा मेडिकल मकान तक.

**वार्ड नं. 07—स्वामी ज्योतिबा फुले वार्ड**

उत्तर—छोटा गवलीपुरा पुलिया माली के बगीचे से सम्पूर्ण रातडिया तालाब होते हुये आमीनखां के मकान तक.

**पूर्व**—आमीनखां के मकान से मालीपुरा नवीन धर्मशाला अंसारी के मकान व गली के पश्चिमी मकानों को सम्मिलित करते हुए दर्जी गली से हाटपुरा गणेश मंदिर के पिंडे पालीवाल के मकान तक.

**दक्षिण**—पालीवाल के मकान से पूर्वी ओर चलते हुए गोपीलाल के मकान से मुल्तानी मस्जिद के मकानों को छोड़कर पीछे के मकानों को सम्मिलित करते हुए भीलपुरा से बड़ौद दरवाजा तक.

**पश्चिम—बड़ौद दरवाजा नगरकोट किनारे से माली के बगीचे तक.**

#### **वार्ड नं. 08—जवाहरलाल नेहरू वार्ड**

**उत्तर—दर्जी गली के कार्नर बिरदीचंद माली के मकान से छोटा तकिया अकबर खां ठेकेदार तक (नीम वाला मकान) तक.**

**पूर्व—अकबर खां (नीम वाला मकान) से गली एवं शंकरसिंह ठाकुर के मकान के सामने से पश्चिमी मकानों को लेते हुये पटेलवाडी छोटी गली के पश्चिम मकानों को सम्मिलित करते हुए सरकारवाडा पुलिस चौकी तक.**

**दक्षिण—पुलिस चौकी सरकारवाडा पुरानी सब्जी मंडी एवं बोहरा बाखल के उत्तरी मकानों को सम्मिलित करते हुए हनुमानगढ़ी मोहनलाल जैन के मकान तक.**

**पश्चिम—हनुमानगढ़ी मोहनलाल जैन के मकान से सुनील पान वाले से दर्जी में गली बिरदीचंद माली के मकान तक.**

#### **वार्ड नं. 09—डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड**

**उत्तर—दिलीप गोरे के मकान से पूर्वी की ओर चलते हुए दक्षिणी मकानों को लेते हुए छावनी दरवाजा कलंदरी मस्जिद तक.**

**पूर्व—कलंदरी मस्जिद से पुनः कसाइवाड़ा में आमीनखां का मकान काजी गली, जामा मस्जिद गली के पश्चिमी मकानों को सम्मिलित करते हुए जामा मस्जिद तक.**

**दक्षिण—जामा मस्जिद से पटेलवाडी बाजार में जाजू कपड़े की दुकान तक.**

**पश्चिम—जाजू कपड़े की दुकान से सम्पूर्ण पटेलवाडी छोटी फखरू भाई की गली के पूर्व के लाईन के मकानों को सम्मिलित करते हुए पुनः दिलीप गोरे के मकान तक.**

#### **वार्ड नं. 10—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड**

**उत्तर—काजी गली (छोटा तकिया) कार्नर पर मुंशीजी के मकान से छोटा बाजार में मूलचंद मेडिकल स्टोर्स तक (दक्षिणी ओर के मकान) तक.**

**पूर्व—मूलचंद मेडिकल से दक्षिण में चलते हुये गोपाल मंदिर पाठक एस. टी. डी. तक (पूर्वी ओर के मकान) तक.**

**दक्षिण—पाठक एस. टी. डी. से सरकारवाडा मालानी की चाय पत्ती दुकान तक.**

**पश्चिम—मालानी चाय पत्ती की दुकान से जामा मस्जिद, काजी गली होते हुये कार्नर पर मुंशीजी का मकान (पूर्वी ओर के समस्त मकान).**

#### **वार्ड नं. 11—डॉ. सरदार भगतसिंह वार्ड**

**उत्तर—सरकारवाड़ा कैलाश पालीवाल के मकान से महावीर मार्ग सोनीजी के मकान तक.**

**पूर्व—सोनीजी के मकान से बलाईपुरा में पश्चिमी मकानों को सम्मिलित करते हुये जमीदारपुरा उज्जैन दरवाजे पर कैलाश पीठे वाले की दुकान तक.**

**दक्षिण—कैलाश पीठे वाले की दुकान से जैश्वर मंदिर तक.**

**पश्चिम—जैश्वर मंदिर से सत्यनारायण गली होते हुये पूर्वी दिशा के समस्त मकानों को सम्मिलित करते हुये कैलाश पालीवाल के मकान तक.**

#### **वार्ड नं. 12—डॉ. अम्बेडकर वार्ड**

**उत्तर—माथुर सा. के मकान से रमेश माली का मकान मदरसे के सामने से काशीबाई कालोनी में शब्दीर का मकान दक्षिणी क्षेत्र.**

**पूर्व—शाबिर खां के मकान से नगर कोट पार करते हुये पूरा फार्म तक.**

**दक्षिण—पूराकार्म से बड़ा तालाब रोड होते हुये उज्जैन दरवाजे तक.**

**पश्चिम—उज्जैन दरवाजे से पूर्व ओर के समस्त मकान केवड़ा स्वामी रोड, लक्ष्मणपुरा, लखेरा मस्जिद से होते हुये माथुर साहब के मकान तक.**

#### **वार्ड नं. 13—सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड**

**उत्तर—महावीर मार्ग जैन उपासरे से नानुराम रेकवाल के मकान तक.**

**पूर्व—नानुराम रेकवाल के मकान से दुकान, महांकाल रोड, लक्ष्मणपुरा बाबूखां ठेकेदार के मकान तक.**

**दक्षिण—बाबूखां ठेकेदार के मकान से मदरसा गली राजू लाईट की गली होते हुये उत्तरी मकानों को सम्मिलित करते हुये अनोखीलाल जैन के मकान तक.**

**पश्चिम—अनोखीलाल जैन के मकान से बलाईपुरा चौक होते हुये कबीर मंदिर व गली को सम्मिलित कर महावीर मार्ग जैन उपासरे तक.**

#### **वार्ड नं. 14—मौलाना आजाद वार्ड**

**उत्तर—छोटाजीन देवीसिंह यादव के मकान से कानड दरवाजा, शंकर टैकरी होते हुये मोला अली दरगाह तक.**

**पूर्व—दरगाह से तुलजा भवानी मंदिर के पीछे से होते हुये देवनारायण माली (गाता) के खेत में बना मकान तक.**

**दक्षिण**—देवनारायण के मकान से काशीबाई के समस्त मकानों को सम्मिलित करते हुए दशरथसिंह के मकान से जरदारखां के मकान एवं वह नीम के यहां मुन्नीबाई के मकान तक.

**पश्चिम**—मुन्नीबाई के मकान से महांकाल रोड, कस्बा मोहल्ला, कानड दरवाजे बाहर, मेवातीपुरा के पूर्वी मकानों को सम्मिलित करते हुये महावीर मार्ग सुरेश भण्डारी का मकान भोईपुरा गली के पूर्वी मकानों को सम्मिलित करते हुए कैलाश बागडी का मकान वहां से देवीसिंह यादव का मकान तक.

#### वार्ड नं. 15—नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड

**उत्तर**—छावनी दरवाजा घाटी पर दरगाह से सोहन राठोर के खेत पर बने मकान तक.

**पूर्व**—भगवान माली के खेत के मकान से पश्चिमी ओर के मकानों को सम्मिलित कर कानड दरवाजा बाहर स्कूल तक.

**दक्षिण**—कानड दरवाजा बाहर स्कूल से नगर कोट किनारे होते हुए झींगा खो नाले से साबिरखां मेवाती का मकान भालदार चोक पश्चिमी मकानों को लेते हुये भण्डारीजी का मकान एवं महावीर मार्ग से गोपाल मंदिर पर मदन पान की दुकान तक.

**पश्चिम**—गोपाल मंदिर पर मदन पान की दुकान से पूर्व के मकानों गांधी गली, इमली गली नीम्बाडा के मकान लेते हुये छावनी दरवाजा दरगाह तक.

#### वार्ड नं. 16—महात्मा गांधी वार्ड

**उत्तर**—रेदास मंदिर से शमशान रोड होते हुये सारंगपुर रोड पर गिट्टी खदान तक.

**पूर्व**—गिट्टी खदान से सेवा भारती अस्पताल के पीछे से मोला अली ठेकरी से सोहन राठोर के खेत तक.

**दक्षिण**—सोहन राठोर के मकान से न. पा. ट्यूबवेल के ऊपर बने मकानों को सम्मिलित कर शक्कर कुईया तक.

**पश्चिम**—शक्कर कुईया से पूर्व मकानों को सम्मिलित करते हुये रेदास मंदिर तक.

#### वार्ड नं. 17—गणेशादत्त शर्मा इन्ड्र वार्ड

**उत्तर**—सुसनेर रोड पर पेट्रोल पम्प से पूर्व की ओर आरा मशीन, उद्योग विभाग के मकानों को सम्मिलित करते हुये बड़े गणपति मंदिर तक.

**पूर्व**—बड़े गणपति मंदिर से अखलाक मुंशी का हनुमान खेड़ापति हनुमान मंदिर होते हुये छावनी शमशान तक.

**दक्षिण**—छावनी शमशान से अयोध्या बस्ती में बने उत्तरी मकानों को सम्मिलित करते हुये वेयरहाउस से जेतून चाची के मकान तक.

**पश्चिम**—जेतून चाची के मकान से उत्तरी ओर चलते हुये छावनी प्रेस, बेजनाथ रोड, प्रोफेसर कालोनी, छावनी नाका रोहित लड्डा का मकान से पूर्वी ओर के मकानों को सम्मिलित करते हुये सुसनेर रोड पर पेट्रोल पम्प तक.

#### वार्ड नं. 18—इन्दिरा गांधी वार्ड

**उत्तर**—एस. डी. ओ. पी. आफिस से पूर्व की ओर चलते हुये हाउसिंग बोर्ड मंगल भवन के सामने होते हुये लोहे की टंकी मोदीखाना रोड पर कंवरलाल की होटल तक.

**पूर्व**—कंवरलाल की होटल से पश्चिमी मकानों को लेते हुये रहमान भिश्ती के मकान तक.

**दक्षिण**—रहमान भिश्ती के मकान से रातडिया तालाब किनारे होते हुये उत्तरी ओर के समस्त मकानों को शामिल करते हुये भोलाराम कुम्हार के मकान तक.

**पश्चिम**—भोलाराम कुम्हार के मकान से मटन मार्केट को शामिल करते हुये एस. डी. ओ. पी. आफिस तक.

#### वार्ड नं. 19—राजीव गांधी वार्ड

**उत्तर**—जैन मंदिर लाल गड्ढे की दुकानों के सामने से चलते हुये छावनी नाके चौराहा पर बने पुराना नाका भवन तक.

**पूर्व**—पुराना नाका भवन से दक्षिण की ओर चलते हुये हरिजन मोहल्ले को शामिल कर आरामशीन, अग्रवाल धर्मशाला स्टेशन रोड के मकानों को शामिल करते हुये हाउसिंग बोर्ड कालोनी में बने लालसिंह हेडसाब के मकान तक.

**दक्षिण**—लालसिंह हेडसाब के मकान से चलते हुये हाउसिंग बोर्ड कालोनी एवं राजीव गांधी कालोनी को शामिल करते हुये नाग मंदिर तक.

**पश्चिम**—नाग मंदिर से पुराना डिपो के आसपास बने मकानों को शामिल करते हुये जैन मंदिर लाल गड्ढे की दुकानों के सामने तक.

#### वार्ड नं. 20—खुदीराम बोस वार्ड

**उत्तर**—गिरधारीलाल खमोरा के मकान से डॉ. घनश्याम शर्मा का मकान नाका रोड खण्डेलवाल कालोनी को शामिल कर सारंगपुर रोड पर तोमर कम्प्यूटर तक.

**पूर्व**—तोमर कम्प्यूटर से दक्षिण की ओर चलते हुये पश्चिम के मकानों को शामिल कर आनंद टाकीज भवन तक.

**दक्षिण—आनंद टाकीज भवन के पश्चिमी ओर चलते हुये दक्षिणी मकानों को शामिल कर शैलेन्ड गुप्ता के मकान तक.**

**पश्चिम—शैलेन्ड गुप्ता के मकान से उत्तर की ओर चलते हुये सदर बाजार गणेश दत्ता रोड के समस्त मकानों को शामिल करते हुये गिरधारीलाल खमोरा के मकान तक.**

#### वार्ड नं. 21—रानी लक्ष्मीबाई वार्ड

**उत्तर—नरवल रोड पर बने कब्रिस्तान से पूर्व की ओर चलते हुये सम्पूर्ण गवलीपुरा को शामिल करते हुये सुसनेर रोड पर बने वेयरहाउस तक.**

**पूर्व—सुसनेर रोड पर बने वेयरहाउस से दक्षिण की ओर चलते हुये दूध डेरी फारेस्ट कालोनी घुघरियाजी के मकान तक.**

**दक्षिण—घुघरियाजी के मकान से नरवल रोड पर बने के पूर्व दिशा में नवीन कृषि उपज मंडी के आफिस तक.**

**पश्चिम—नवीन कृषि उपज मंडी के आफिस से नरवल रोड पर बने कब्रिस्तान तक.**

#### वार्ड नं. 22—तात्याटोपे वार्ड

**उत्तर—विवेकानंद नगर कॉलोनी के अंतिम छोर पर बने कैलाशचंद्र जी शर्मा, बी. ई. ओ. के मकान से नरवल रोड पर मितल्ल दाल मिल तक.**

**पूर्व—मितल दाल मिल से कृषि उपज मंडी के सामने से होते हुये नाका चौराहे पर बने पी. डब्ल्यू. डी. भवन तक.**

**दक्षिण—नाका चौराहे पर बने पी. डब्ल्यू. डी. भवन से पश्चिम की ओर चलते हुये सरस्वती शिशु मंदिर पुलिस कालोनी राणी सती मंदिर के आसपास के मकानों को शामिल करते हुये बड़ौद रोड चौराहे पर मारुबलिड्या की दुकान तक.**

**पश्चिम—मारुबलिड्या की दुकान से विवेकानंद नगर में चलते हुये पूर्वी ओर के मकानों को शामिल कर पानी की टंकी के पूर्व की ओर चलते हुये अंतिम छोर पर बने घार्डेजी के मकान तक.**

#### वार्ड नं. 23—वीर शिवाजी वार्ड

**उत्तर—पाल रोड पर बने मेदा मिल के पीछे बने मेहरबानसिंह के मकान से पूर्व की ओर चलते हुये सीताराम शर्मा के मकान तक.**

**पूर्व—सीताराम शर्मा के मकान से दक्षिणी ओर चलते हुये पश्चिमी ओर के मकानों को शामिल करते हुये बड़ौद रोड पर दोलतराम पालीवाल के मकान तक.**

**दक्षिण—दौलतराम पालीवाल के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुये दक्षिणी ओर के बने मकानों, मिलों को शामिल करते हुये बड़ौद रोड अंतिम छोर निर्माणाधीन विनायक कालोनी तक.**

**पश्चिम—विनायक कालोनी से उत्तर की ओर चलते हुये पूर्वी दिशा के मकानों को शामिल कर पाल रोड बनी मैदा मिल तक.**

**डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर**

#### कार्यालय, नगर परिषद्, नलखेड़ा, मध्यप्रदेश

आगर-मालवा, दिनांक 31 जनवरी 2014

**क्र. 95—जिशविअ-2014.—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-138-अठारह-2007, भोपाल दिनांक 3 नवम्बर 2007 एवं मुख्य निर्बाचन अधिकारी मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 7-3-2007-08-5947, दिनांक 30 अक्टूबर 2007 में दिये निर्देशानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 355 के अन्तर्गत बनाये गये मध्यप्रदेश नगरपालिका (वार्ड का विस्तार) नियम, 1994 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत नगर परिषद्, नलखेड़ा के वार्डों का परिसीमन किया गया है, परिसीमन में शासन द्वारा निर्धारित 15 वार्ड रखे गये हैं, नगर की वर्ष 2011 की जनसंख्या है, 15 वार्डों में विभाजित कर परिसीमन किया गया है वार्डों की जनसंख्या में 15 प्रतिशत की कमी या वृद्धि पर पूरा ध्यान रखा गया है तथा वार्डों की सीमा प्राकृतिक चिन्ह एवं राजस्व ग्राम की सीमा के आधार पर निश्चित की गई है, नियमानुसार वार्डों की चतुर्सीमा का प्रारंभिक प्रकाशन मध्यप्रदेश नगरपालिका (वार्डों का विस्तार) नगरपालिका अधिनियम, 1994 के नियम 7 के अन्तर्गत पेपर विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे, परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। जनसंख्या 2011 के अनुसार वार्ड वार एकरूपता रखते हुए वार्डों का परिसीमन किया गया :—**

#### अनुसूची

| क्र. | वार्ड क्रमांक | वार्ड का नाम             |
|------|---------------|--------------------------|
| (1)  | (2)           | (3)                      |
| 1    | 1             | लालबहादुर शास्त्री वार्ड |
| 2    | 2             | प्रताप वार्ड             |
| 3    | 3             | गोविंद वल्लभपंत वार्ड    |
| 4    | 4             | जवाहर वार्ड              |
| 5    | 5             | महावीर वार्ड             |
| 6    | 6             | विनोबा वार्ड             |

| (1) | (2) | (3)                 |
|-----|-----|---------------------|
| 7   | 7   | तिलक वार्ड          |
| 8   | 8   | मौलाना आजाद वार्ड   |
| 9   | 9   | अशोक वार्ड          |
| 10  | 10  | डॉ. अम्बेडकर वार्ड  |
| 11  | 11  | सुभाष वार्ड         |
| 12  | 12  | महात्मा गांधी वार्ड |
| 13  | 13  | शिवाजी वार्ड        |
| 14  | 14  | भगतसिंह वार्ड       |
| 15  | 15  | लक्ष्मीबाई वार्ड    |

नगर परिषद्, नलखेड़ा के वार्डों की चतुर्थ सीमा का विवरण निम्नानुसार है :—

#### वार्ड क्रमांक 01—लालबहादुर शास्त्री वार्ड

उत्तर—मॉ बगलामुखी मंदिर (शमशान) से कैलाश जी राठौर के पेट्रोल पंप तक.

पूर्व—पेट्रोल पंप से राठौर काम्पलेक्स, माताजी मंदिर दुकानों का पश्चिमी काम्पलेक्स, फुलचंदजी पाटीदार की दुकान से कल्लुभाई टायर वाले की दुकान तक.

दक्षिण—कल्लु भाई टायर वाले से नने खां पहलवान का मकान, हरीजन कालोनी की बड़ी मस्जिद, मजीद खां का मकान (पुरा धेरा) तक फकीर मोहम्मद के मकान से रजाक मास्टर का मकान मटन बाजार तक.

पश्चिम—मटन बाजार से समस्त ईंट भट्टा क्षेत्र, वाटर वर्क्स (नदी वाला) बड़ वाली दरगाह से मां बगलामुखी माता जी मंदिर, बोहरा कब्रस्तान, शमशान घाट तक.

#### वार्ड क्रमांक 02 —प्रताप वार्ड

उत्तर—भगवती प्रसाद जी सोनी के मकान से नीमा कालोनी सम्पूर्ण, भंवरलाल जी की कालोनी, शांतिलाल शर्मा के मकान, गोपालजी राठौर के मकान से होते हुये आजाद शाह मिस्त्री के मकान तक.

पूर्व—बालचंदजी धोबी के मकान से (नाला) हनीफ भाई के मकान से होते हुये फकरूददीन भाई का मकान होते हुये गणेश जी मंदिर तक.

दक्षिण—गणेश जी मंदिर से हाईस्कूल, पुलिस आवास, सम्पूर्ण नीमा कालोनी, राज होटल होते हुये, राजेश खण्डेलवाल तक.

पश्चिम—राजेश जी की दुकान से पुरोहित जी की दुकान होते हुये भगवनी प्रसाद जी सोनी के मकान तक (अंदर का क्षेत्र).

#### वार्ड क्रमांक 03—गोविन्द कल्लभंत वार्ड

उत्तर—नयापुरा कब्रस्तान पुलिया से कैलाशजी मेवाड़ा के मकान तक.

पूर्व—कैलाशजी मेवाड़ा के मकान से रमेश धोबी का मकान, कस्तुरदा धोबी के मकान, कमलाबाई के मकान, बाबेदा मेरोठा का मकान होते हुये मांगीलाल जी खटीक के मकान से मोहम्मद खांजी का मकान.

दक्षिण—मोहम्मद खांजी के मकान से चुनीलाल जी के मकान होते हुये बसंतीबाई का मकान, न्यायालय परिसर से माता मंदिर काम्पलेक्स का पूर्वी भाग तक.

पश्चिम—माताजी मंदिर काम्पलेक्स से दुर्गेश राठौर के मकान होते हुए, हनुमान जी मंदिर, कब्रस्तान पुलिया तक अन्दर का सम्पूर्ण क्षेत्र.

#### वार्ड क्रमांक 04—जवाहर वार्ड

उत्तर—लखुंदर नदी पुल का पश्चिमी भाग से शासकीय अस्पताल, रांगोट सा का मकान, नागर साब, वेयर हाउस, मानसिंह धोबी, एलएसएस क्षेत्र, बालचंद मोदी का मकान, रईस खां की चक्की, राजाराम का मकान, मांगीबाई, मैहतर के मकान से भयु हेला का मकान, रहीम भाई का मकान होते हुये, युनुस अली का मकान, अजीज भाई के मकान तक.

पूर्व—अजीज भाई के मकान से बोहरा काम्पलेक्स अकबर भाई के मकान के पीछे से ब्रजेश खण्डेलवाल, गोपालदास खण्डेलवाल की कालोनी, ओम पंडित का मकान, नवीन पाण्डीया का काम्पलेक्स होते हुये भैंसोदा रोड कालोनी (मुना सोनी), वात्सल्य स्कूल से गोकुलधाम कालोनी पुलिया तक.

दक्षिण—गोकुल धाम पुलिया से अजमेरी मेडिकल वाले का मकान, राधेश्यामजी पाटीदार का मकान, पीरूचाचा की कालोनी, विद्युत् विभाग से सरदार पटेल चौराहे तक.

पश्चिम—विद्युत् विभाग से बैंक ऑफ इंडिया, बाबूलाल विश्वकर्मा का मकान से रामदीपक का मकान, लोहार का मकान पुल तक सीमा के अंदर का सम्पूर्ण क्षेत्र.

#### वार्ड क्रमांक 05—महावीर वार्ड

उत्तर—दिनेश जी धुपिया के मकान से ऋषभ जी रूणवाल के मकान तक.

पूर्व—रामचन्द्र जी राठौर के मकान से गोतम जी फाफरिया की दुकान तक.

**दक्षिण—गोतम जी फाफरिया की दुकान से हाजी काका के मकान होते हुये, पवन पांडिया का मकान होते हुये, पारसमल जी चौधरी के मकान से पोस्ट आफिस तक.**

**पश्चिम—पोस्ट आफिस से सुनिल पांडिया का मकान, सम्पूर्ण पांडिया कालोनी क्षेत्र, स्वर्णकार धर्मशाला, सिलावट मंदिर तेजमल जी का मकान, दिनेश जी भट्ट का मकान से हुसेन शाहलाल के मकान होते हुये, ओमजी शर्मा का मकान की गली होते हुये, आशीष सुराना का मकान, पालीवाल जी के मकान तक, सीमा के अंदर का संपूर्ण क्षेत्र.**

### वार्ड क्रमांक 06—विनोबा वार्ड

**उत्तर—रफीक पहलवार (कुडकडे) के मकान से सोनाबाई खटीक के मकान होते हुये, चतुर्भुज भगत के मकान होते हुये, शब्दीर हेला का मकान होते हुये, अशोक प्रजापति की दुकान से विक्रम गायरी के मकान होते हुये, मोतीलाल गायरी के मकान से नाले के सामने तक.**

**पूर्व—मोतीलाल जी गायरी के मकान से पीरुलाल गायरी के मकान होते हुये डाबला वाले पंडित जी के मकान तक.**

**दक्षिण—कुशल जी मुणोत के मकान से सीधे राधेश्वर जी भामी के मकान होते हुये, नारायण दा धोबी (टेलर) नाले होते हुये भंवर दा धोबी के मकान तक.**

**पश्चिम—भंवर दा धोबी के मकान से असरफ भाई के मकान होते हुये, पुरालाल जी भोई से होते हुये, रफीक पहलवान, लालचनंद भोई कुडकडे तक, अंदर का संपूर्ण क्षेत्र.**

### वार्ड क्रमांक 07—तिलक वार्ड

**उत्तर—ईदगाह मस्जिद से टोल टेक्स नाका क्षेत्र, पूर्व विधायक साब का आवास, धरोला रोड क्षेत्र, केशव विद्या निकेतन, श्रीनाथ धाम मंदिर होते हुये, कंवरलाल लोहार के मकान से होते हुये, सैफुर्भाई के मकान से भंवरलाल जी गायरी के मकान होते हुये, कृषि उपज मंडी होते हुये टेचिंग ग्राउण्ड से गौ शाला तक.**

**पूर्व—गौ शाला से मित्तल पेट्रोल पंप होते हुये, सिद्धार्त कालोनी से टेलीफोन विभाग तक, सम्पूर्ण अयोध्या बस्ती.**

**दक्षिण—टेलीफोन विभाग से छात्रावास, बीआरसी भवन, नगरपालिका काम्पलेक्स, आईडीएसएमटी की दुकान (बिरुल जी जिनिंग फेकट्री तक).**

**पश्चिम—ठाकुर मोहल्ला कब्रस्तान नाले से कैलाश गायरी का मकान, रामकरण विश्वकर्मा का मकान होते हुये, टोल नाके के सामने वाले क्षेत्र पुलिया तक होते हुये माता जी मंदिर पुलिया का उत्तरी क्षेत्र, ईदगाह मस्जिद तक.**

### वार्ड क्रमांक 08—पौलाना आजाद वार्ड

**उत्तर—हसीब भाई के मकान से भय्यु कुरेशी के मकान होते हुये, सम्पूर्ण डोकरपुरा क्षेत्र, जब्बार भाई नियारगर के मकान से काले खांजी के मकान तक.**

**पूर्व—काले खांजी के मकान से कनीज आपा के मकान से होते हुये अब्दुल जब्बार खां सा के मकान तक, नवाब भाई के मकान से खण्डेलवाल धर्मशाला तक.**

**दक्षिण—खण्डेलवाल धर्मशाला से शौकत भाई नियारगर के मकान होते हुये अनु कुरेशी के मकान तक, सम्पूर्ण ठाकुर मोहल्ला.**

**पश्चिम—अनु भाई कुरेशी के मकान से सत्यानारायण जी राठौर के मकान से होते हुये हसीब भाई के मकान तक.**

### वार्ड क्रमांक 09—अशोक वार्ड

**उत्तर—राधेश्यामजी सोनी के मकान से केशु अंकल का मकान होते हुये पालीवालजी वाली गली, सत्तार भाई नियारगर के मकान से होते हुये सलीम भाई मिस्त्री, राधेश्याम गौड़ के मकान, ठाकुर मोहल्ला मस्जिद से रमेश सोनी के मकान से त्रिलोकचंद पाटीदार का मकान, देवीसिंहजी वेदिया के मकान से कन्हैयालाल जी वेदिया के मकान होते हुये, सलीम खां पिंजारा के मकान से भैरुलाल जी माली के मकान तक**

**पूर्व—किला गेट (मेन गेट) श्यामजी लोहार के मकान से होते हुये, घनश्यामदा राठौर के मकान तक.**

**दक्षिण—घनश्यामदा राठौर के मकान से नवीन शाला तक, रामकिशन कक्का, रमेश जी रोकडिया के मकान तक होते हुये, भाटिया जी, सावंलियानाथ मंदिर, हकीम भाई बोहरा का मकान, गेंदमल जी कांठेड़ की दुकान तक.**

**पश्चिम—कैलाशजी मकवाना की दुकान से लाभमल जी चौधरी के मकान, सुरेश जी कांठेड़ का मकान शामिल करते हुये राधेश्याम सोनी के मकान तक.**

### वार्ड क्रमांक 10—डॉ. अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर—राम मंदिर से समद गौरी का मकान, राधेश्यामजी मिस्त्री का मकान, नाले के सहारे सेवाजी ग्वाल की कालोनी, कैलाश सूर्यवंशी के मकान तक.**

**पूर्व—कैलाश सूर्यवंशी के मकान से मेहताब के मकान तक, मोहनलाल का मकान, आमना बाई का मकान, मांगलिक भवन होते हुये, बल्डावदा हनुमान मंदिर तक बल्डावदा रोड का उत्तरी भाग.**

**दक्षिण**—मांगलिक भवन से नंदा वा मालवीय का मकान से गोवर्धन जी के मकान होते हुये, सुगनबाई के मकान होते हुये, देवीलाल जी दरोगा का मकान, सिद्धनाथ का मकान से रमजानी भाई मेवाती का मकान, मामराज भाई का मकान, शकुर हेड सा के मकान से होते हुये पुरुषोत्तम पटवारी के मकान तक.

**पश्चिम**—पुरुषोत्तम जी पटवारी के मकान से रामेश्वर वेदिया का मकान, गोवर्धन जी भालोट के मकान से राम मंदिर तक, सीमा के अंदर का सम्पूर्ण क्षेत्र.

### वार्ड क्रमांक 11—सुभाष वार्ड

**उत्तर**—ओम जी तिवारी के मकान से श्यामजी नामदेव का मकान होते हुये, हमीद खां की किराना दुकान से गफ्फार खां के मकान तक.

**पूर्व**—गफ्फार खां के मकान से मदरसा तकिया कब्रस्तान से सिराज भाई का मकान होते हुये, गफुर पटेल का क्षेत्र, रहमान खां के मकान से जुम्मन खां के नये मकान तक.

**दक्षिण**—बलडावदा हनुमान मंदिर रोड़ के दक्षिणी भाग से रसीद खां हबीब खां के मकान, शोकत शाह का मकान, मेवातियों का कब्रस्तान, आरामशीन बुला चौधरी की बावड़ी, आशिक भाई मेहबूब भाई का मकान, पीर खां का मकान होते हुये बरकत खांजी के मकान से इलियास भाई के मकान तक.

**पश्चिम**—मजीर खां के मकान शकील भाई के मकान से कैलाश सोनी के मकान तक, बाबूखां के मकान से नने खां का मकान, सिद्धिक खां ठेकेदार का मकान, हकीम खां पिता जब्बार खां का मकान, बसीर खां के मकान से ओमजी तिवारी के मकान तक. सीमा के अंदर का संपूर्ण क्षेत्र.

### वार्ड क्रमांक 12—महात्मा गांधी वार्ड

**उत्तर**—सिताराम जी चौधरी के मकान से दीपक श्रीवास्तव, नारायण जी गोठी, गणपत जी विश्वकर्मा, जगदीश जी वेदिया के मकान से होते हुये, श्यामसुंदर शर्मा के मकान तक.

**पूर्व**—श्यामसुंदर शर्मा के मकान से गेंदमल जी कांठेड़, मांगलिलाल जी धोबी, मोखमसिंह जी, नारायण जी पटेल से कंवरलाल जी भील के मकान तक, घनश्याम भालोट का मकान.

**दक्षिण**—शितला माता मंदिर के सामने हनुमान जी मंदिर से केशु उस्ताद के सामने बाली पट्टी, रोड़मल जी विश्वकर्मा के मकान से होते हुये, शिवजी राठौर आदि कालोनी, आरीफ खां पिता हबीब खां के मकान तक होते हुये खेड़ापति हनुमान मंदिर तक.

**पश्चिम**—आरीफ खां पिता हबीबखां के मकान से मठ की बावड़ी, सज्जाद भाई का मकान, नजीर खां जी का मकान होते हुये गेंदालाल जी वाला मकान, खेड़ापति हनुमान जी वाली गली, किशोर जी नाई के मकान से होते हुये सुरेश जी नाई के मकान से सीताराम जी चौधरी के मकान तक, अंदर का संपूर्ण क्षेत्र.

### वार्ड क्रमांक 13—शिवाजी वार्ड

**उत्तर**—दिगंबर जैन बड़ा मंदिर से सैफु भाई का मकान, कल्याणमल जी के मकान से आफताब भाई की दुकान तक, औसवाल वाली दोनों साईंडे, मुखर्जी मार्ग दोनों साईंड, मानकचंद जी के मकान से आफताब भाई की दुकान तक, मकवाना मा. सा. की गली, महाकाल मार्ग के गोस्वामी क्षेत्र.

**पूर्व**—दिगंबर जैन मंदिर से अशोक जी औसवाल के मकान से गोपाल जी खण्डेलवाल तक.

**दक्षिण**—गोपाल जी खण्डेलवाल के मकान से बाबूदा खण्डेलवाल का मकान, हरिओम पत्रकार के मकान से हनुमानप्रसाद खण्डेलवाल के मकान तक.

**पश्चिम**—हनुमानप्रसाद खण्डेलवाल के मकान से नीमाजी का मकान, गोशाला, भारतीय स्टेट बैंक से प्रकाश टेलर की दुकान तक.

### वार्ड क्रमांक 14—भगतसिंह वार्ड

**उत्तर**—कांतु भैया के मकान से गोपालजी राही दुकान, दिगंबर जैन धर्मशाला से गोपाल जी राठौर के घर तक होते हुये, जगदीश बैरागी, पारस सौगानी, अशोक जी राव के मकान से क्यथुम खां के मकान तक.

**पूर्व**—क्यथुम भाई के मकान से मंटु दा प्रजापति के मकान, लक्ष्मीनारायण जी कुंभकार के मकान से गोठी जी म. सा. के मकान से होते हुये कंवरलाल जी कांची के मकान से गफ्फार भाई हम्माल का मकान, पिंजारा वाला सम्पूर्ण क्षेत्र.

**दक्षिण**—घोसाला माली के मकान से मांगलिक भवन, ज्ञानसिंह तोमर के मकान से पीरखां जी के मकान तक अंदर का संपूर्ण क्षेत्र.

**पश्चिम**—मदनलाल जी जतनलाल जी के मकान से बोहरा मस्जिद, गोपाल जी कालु जी भील की सेरी, रमेश जी भिलाला की सेरी, गोपाल जी पंडा, संतोष जी सोनी तक होते हुये, दिगंबर जैन धर्मशाला पिछला क्षेत्र, रामकिशन जी चण्डक का मकान से दिपु अंकल के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 15—लक्ष्मीबाई वार्ड

**उत्तर**—पुलिस थाना से प्रेमचंद सकलेचा का मकान, सुरेशजी अग्रवाल की दुकान से मोखमसिंह जी का मकान,

डॉ. महेन्द्रजी का मकान, चांदसी डॉ. सा. रामकरण जी सुरजीत का मकान, मुकेश लोहार, मुबारिक बाबा की आरामशीन से बालोध्यान तक.

**पूर्व**—मुस्तकीम के मकान से राजाराम भील, शब्दीर बोहरा से रफीफ भाई की चक्की के मकान से होते हुये, शफी भाई राजेन्द्र नामदेव के मकान से कन्हैयालाल वेदिया के मकान तक, प्रधानमंत्री रोड तक.

**दक्षिण**—कन्हैयालाल वेदिया के मकान से चारधाम मंदिर होते हुये, माधवकुंज तक.

**पश्चिम**—शांतिलाल राठौर के मकान से राजेन्द्र तिवारी का मकान होते हुये, पुलिस थाना तक, सीमा का संपूर्ण क्षेत्र.

डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर

### कार्यालय, नगर परिषद्, कानड़

आगर-मालवा, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. 25-जिशविअ-2014.—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-138-अठाह-2007, भोपाल दिनांक 3 नवम्बर 2007 एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 7-3-2007-08-5947, दिनांक 30 अक्टूबर 2007 में दिये निर्देशानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 355 के अन्तर्गत बनाये गये मध्यप्रदेश नगरपालिका (वार्ड का विस्तार) नियम, 1994 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत नगर परिषद्, कानड़ के वार्डों का परिसीमन किया गया है, परिसीमन में शासन द्वारा निर्धारित 15 वार्ड रखे गये हैं, नगर की वर्ष 2011 की जनसंख्या है, 15 वार्डों में विभाजित कर परिसीमन किया गया है। वार्डों की जनसंख्या में 15 प्रतिशत की कमी या बुद्धि पर पूरा ध्यान रखा गया हैं तथा वार्डों की सीमा प्राकृतिक चिन्ह एवं राजस्व ग्राम की सीमा के आधार पर निश्चित की गई है, नियमानुसार वार्डों को चतुर्सीमा का प्रारंभिक प्रकाशन मध्यप्रदेश नगरपालिका (वार्डों का विस्तार) नगरपालिका अधिनियम, 1994 के नियम 7 के अन्तर्गत पेपर विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे, परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। जनसंख्या 2011 के अनुसार वार्ड वार एकरूपता रखते हुए वार्डों का परिसीमान किया गया :—

अनुसूची

| क्र. | वार्ड क्रमांक | वार्ड का नाम              |
|------|---------------|---------------------------|
| (1)  | (2)           | (3)                       |
| 1    | 1             | डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड |
| 2    | 2             | बजरंग वार्ड               |
| 3    | 3             | पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड  |

| (1) | (2) | (3)                         |
|-----|-----|-----------------------------|
| 4   | 4   | सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड  |
| 5   | 5   | नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड |
| 6   | 6   | लालबहादुर शास्त्री वार्ड    |
| 7   | 7   | महाराणा प्रताप वार्ड        |
| 8   | 8   | किंदवई वार्ड                |
| 9   | 9   | डॉ. अब्दुल कलाम आजाद वार्ड  |
| 10  | 10  | महात्मा गांधी वार्ड         |
| 11  | 11  | श्रीमती इंदिरा गांधी वार्ड  |
| 12  | 12  | संजय गांधी वार्ड            |
| 13  | 13  | राजीव गांधी वार्ड           |
| 14  | 14  | महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड    |
| 15  | 15  | छतपति शिवाजी वार्ड          |

नगर परिषद्, कानड़ के वार्डों की चतुर्थ सीमा का विवरण निम्नानुसार है :—

#### वार्ड क्रमांक 01—डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर**—दयाराम मालवीय से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए बंशीलाल के मकान तक जिसमें दक्षिण दिशा के मकान सम्मिलित हैं।

**पूर्व**—बंशीलाल के मकान से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए गिरधारी के मकान तक जिसमें पश्चिम दिशा के मकान सम्मिलित हैं।

**दक्षिण**—गिरधारी से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए बाबूलाल के मकान तक।

**पश्चिम**—पप्पू शाह पिता शब्दीर शाह के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए हीरालालजी उंकारलाल जी के मकान तक।

#### वार्ड क्रमांक 02—बजरंग वार्ड

**उत्तर**—जुल्फकार अली के मकान से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए ईशाक शाह-नबी शाह के मकान तक, जिसमें दक्षिण दिशा के मकान सम्मिलित हैं।

**पूर्व**—शफी खां के मकान से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए मुक्तीयार खां-नब्बु खां तक पश्चिम के मकान तक।

**दक्षिण**—मुक्तियार खां-नब्बु खां के मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए घासीराम शंकरलाल के मकान तक।

**पश्चिम**—श्री बाबूलाल सोनी के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए शिवनारायण पिता गंगारामजी माली के मकान तक पूर्व के समस्त मकान।

### **वार्ड क्रमांक 03—यं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड**

**उत्तर**—कालूराम सूर्यवंशी के मकान से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए, मांगीलाल के मकान तक एवं दक्षिण दिशा के समस्त मकान सम्मिलित हैं।

**पूर्व**—असलम खां के मकान से चलते हुए दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए, पश्चिम में आत्माराम बावलसिंह कुम्हर के मकान तक।

**दक्षिण**—रामप्रसाद के मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए रामवल्लभ सोनी के मकान तक।

**पश्चिम**—कहन्यालाल माली के मकान से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए हरिनारायण माली के सामने पूर्व दिशा के समस्त मकान।

### **वार्ड क्रमांक 04—सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड**

**उत्तर**—देवकरण टेलर के मकान से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए राधाकृष्ण मंदिर तक दक्षिण दिशा के मकान।

**पूर्व**—शंकरलाल जी पालीवाल के मकान से चलते हुए दक्षिण दिशा में चलते हुए भेरुलाल धोबी माताजी रोड तक।

**दक्षिण**—भेरुलाल धोबी से पश्चिम दिशा से चलते हुए बलराम टेलर तक उत्तर दिशा के मकान।

**पश्चिम**—सुभाष बैरागी के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए अनोखीलाल टेलर के मकान तक पूर्व दिशा के मकान।

### **वार्ड क्रमांक 05—नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड**

**उत्तर**—प्रवीण शर्मा के मकान से पूर्व दिशा की ओर चलते हुये भंवरलाल के मकान तक।

**पूर्व**—पूरालाल गायरी के मकान से दक्षिण दिशा में चलते हुए पश्चिम से राजमल जो पालीवाल के मकान तक।

**दक्षिण**—राजमलजी पालीवाल के मकान से पश्चिम दिशा में चलते हुए काशीराम उमराव जी के मकान तक एवं उत्तर दिशा के देवराज राठोर तक।

**पश्चिम**—काशीराम उमरावजी आर्य के मकान से उत्तर दिशा की ओर चलते हुये रामगोपाल विश्वकर्मा के मकान तक।

### **वार्ड क्रमांक 06—लालबहादुर शास्त्री वार्ड**

**उत्तर**—नारायणसिंह मण्डलोई के मकान से पूर्व दिशा की ओर चलते हुये, रमेशचन्द्र राठोर के मकान तक दक्षिण दिशा के मकान।

**पूर्व**—बलदेवसिंह के मकान से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए कैलाशनारायण इटावदिया के मकान तक पश्चिम दिशा के मकान।

**दक्षिण**—कैलाश इटावदिया के मकान से पश्चिम दिशा में चलते हुए शंकरलाल चौधरी के मकान तक।

**पश्चिम**—नारायणसिंह मण्डलोई के मकान से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए पूर्व दिशा के मकान।

### **वार्ड क्रमांक 07—महाराणा प्रताप वार्ड**

**उत्तर**—दिलीपसिंह (जालखा) के मकान से पूर्व दिशा की ओर चलते हुये, शब्दीर खां के मकान तक दक्षिण दिशा के मकान सम्मिलित हैं।

**पूर्व**—शब्दीरखां के मकान से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये शागीर खां के मकान तक सभी पश्चिम दिशा के मकान सम्मिलित हैं।

**दक्षिण**—शागीर खां के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुये मदनलाल के मकान से उत्तर दिशा के समस्त मकान।

**पश्चिम**—अमरसिंह के मकान से उत्तर की ओर चलते हुये, सैयद मुन्नवर हुसेन के मकान तक एवं पूर्व दिशा के मकान।

### **वार्ड क्रमांक 08—किंदवई वार्ड**

**उत्तर**—दुर्गाप्रसाद के मकान से दक्षिण में चलते हुये, बाबुलाल के मकान तक दक्षिण के सभी सम्मिलित मकान।

**पूर्व**—सार्वजनिक शौचालय से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये सारंगपुर रोड होते हुए, एस्सार पेट्रोल पंप तक।

**दक्षिण**—नेताजी स्कूल से चलते हुये, पश्चिम दिशा की ओर होते हुये दयानंद मार्ग से प्रेमनारायण टेलर के मकान तक पश्चिम दिशा के सभी मकान सम्मिलित।

**पश्चिम**—प्रेमनारायण के मकान से उत्तर की ओर चलते हुये, महेश मंगल के मकान तक उत्तर दिशा के सभी मकान सम्मिलित हैं।

### **वार्ड क्रमांक 09—डॉ. अब्दुल कलाम आजाद वार्ड**

**उत्तर**—धुलजी राठोर के मकान से चलते हुये, पूर्व दिशा की ओर चलते हुये, पानीबाई के मकान तक दक्षिण दिशा के मकान।

**पूर्व**—चन्द्रसिंह के मकान से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुये पूर्व की ओर शोभा शिन्दे के मकान तक।

**दक्षिण**—बाबूलाल ठाकुर के मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये राधाकृष्ण मंदिर उत्तर की ओर लक्ष्मीनारायण पालीवाल के मकान तक.

**पश्चिम**—राधाकृष्ण मंदिर से चलते हुये, लक्ष्मीनारायण के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 10—महात्मा गांधी वार्ड

**उत्तर**—कमोदसिंह बीजापारी के मकान से पूर्व दिशा की ओर चलते हुये, प्रतापसिंह उमरावसिंह के मकान तक जिसमें दक्षिण दिशा के मकान सम्मिलित हैं।

**पूर्व**—प्रतापसिंह उमरावसिंह के मकान से दक्षिण मकान तक जिसमें दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए इसरार खां के मकान तक. जिसमें पश्चिम दिशा के मकान सम्मिलित हैं।

**दक्षिण**—करणसिंह भंवरलाल जी ठाकुर के मकान से पश्चिम दिशा से चलते हुये, उत्तर की ओर रम्भाबाई हीरलालजी के मकान तक.

**पश्चिम**—मोहनलाल रामरतन खाती के मकान से उत्तर की ओर से पूर्व की ओर चलते हुए, रामचन्द्र लोहार के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 11—श्रीमती इंदिरा गांधी वार्ड

**उत्तर**—श्री कृष्ण वल्लभ दुबे के मकान से पूर्व की ओर चलते हुये, रजाक खां के मकान तक एवं सामने की ओर बागरी मोहल्ला पट्टी।

**पूर्व**—श्री रजाक खां के मकान के पीछे से दक्षिण दिशा में चलते हुये, यात्री प्रतीक्षालय तक पश्चिम दिशा के मकान सम्मिलित हैं।

**दक्षिण**—यात्री प्रतीक्षालय से चलते हुये श्री सिद्धनाथ चौधरी जी के मकान तक.

**पश्चिम**—श्री बंशीलाल लुहार के मकान से उत्तर की ओर चलते हुये, श्री वीरेन्द्र सिंह ठाकुर के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 12—संजय गांधी वार्ड

**उत्तर**—श्री दुर्गाप्रसाद के मकान से पूर्व दिशा की ओर चलते हुये श्री कैलाशनारायण-अनोखीलाल के मकान तक जिसमें दक्षिण दिशा के मकान सम्मिलित हैं।

**पूर्व**—घासीराम-उंकारलाल खाती के मकान से दक्षिण दिशा में चलते हुये कैलाशनारायण-कन्हैयालाल के मकान तक जिसमें पश्चिम दिशा के मकान शामिल हैं।

**दक्षिण**—सादीक खां के मकान से उत्तर दिशा की ओर चलते हुये, काजी इश्ताक अली सा. के मकान तक उत्तर दिशा के मकान तक.

**पश्चिम**—काजी इश्ताक अली सा. के मकान से उत्तर की ओर चलते हुये पूर्व की ओर गोपाल बरेठा वाली गली एवं भरेवा सेरी का भाग तक.

#### वार्ड क्रमांक 13—राजीव गांधी वार्ड

**उत्तर**—संतोष बीजापारी से पूर्व दिशा की ओर बाबूलाल डीलर के मकान तक एवं ब्लाक 15 के डॉ. जगदीश के मकान से शिवनारायण के मकान तक.

**पूर्व**—महेशचन्द्र के मकान से शोभाराम कलाल के मकान तक समस्त मकान.

**दक्षिण**—गोपाल नाई शिवगढ़ वाले से मकबुल हुसैन के मकान तक एवं ब्लाक 15 के भुपेन्द्र शर्मा के मकान से नेताजी स्कूल तक.

**पश्चिम**—पर्वतराव पराठा से उत्तर की ओर कपोदसिंह जी के मकान तक एवं ब्लाक 15 में नेताजी सुभाष स्कूल से डॉ. जगदीश के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 14—महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

**उत्तर**—रामचन्द्र भानुपति के मकान से दक्षिण से चलते हुये, नारायणसिंह लोहार तक समस्त मकान.

**पूर्व**—नेताजी पब्लिक स्कूल से दक्षिण दिशा में चलते हुये, देवीसिंह बंजारा के कोने के मकान को अंदर लेते हुये शिवनारायण कालूराम मालवीय के मकान से कमलाबाई देवीसिंह राठौर की चक्की लेते हुये, मोहम्मद खाँ-छोटेखां के मकान, सारंगपुर रोड तक समस्त मकान/मोहम्मद खां के मकान से जायसवाल की होटल तक.

**दक्षिण**—सुरेशचन्द्र पाठक की दुकान से पूर्व की ओर चलते हुये प्रकाशचन्द्र सेठ के समस्त मकान.

**पश्चिम**—नागूलाल सुतार के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुये, भेरुलाल मालवीय अध्यापक के मकान तक, ब्लाक 15 के मकान नं. 170 राधाबाई के मकान से मकान में 262 नेताजी स्कूल तक.

#### वार्ड क्रमांक 15—छत्रपति शिवाजी वार्ड

**उत्तर**—शिव पहाड़ी मंदिर बृजमोहन दास पुजारी से बाबू खां के मकान तक/समस्त मकान दक्षिण दिशा के सभी मकान.

**पूर्व**—दयाराम मालवीय पटवारी के मकान से उत्तर की ओर चलते हुये, आगर-सारंगपुर रोड में आगर की ओर चलते हुये नेता कालोनी केक राजेन्द्र शर्मा के मकान तक नेता कालोनी के समस्त मकान.

**दक्षिण**—बाबूलाल नागर के मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुये, कालूराम माली के मकान से पश्चिम में अयोध्या बस्ती के पश्चिम के मकान.

**पश्चिम**—देवनारायण तालाब से उत्तर दिशा की ओर चलते हुये अयोध्या बस्ती के समस्त मकान एवं शिव पहाड़ी मंदिर तक.

डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर

### कार्यालय, नगर परिषद्, बड़ौद, मध्यप्रदेश

आगर-मालवा, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. 95-जिशविअ-2014.—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-138-अठारह-2007, भोपाल दिनांक 3 नवम्बर 2007 एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 7-3-2007-08-5947, दिनांक 30 अक्टूबर 2007 में दिये निर्देशानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 355 के अन्तर्गत बनाये गये मध्यप्रदेश नगरपालिका (वार्ड का विस्तार) नियम, 1994 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत नगर परिषद्, बड़ौद के वार्डों का परिसीमन किया गया है, परिसीमन में शासन द्वारा निर्धारित 15 वार्ड रखे गये हैं, नगर की वर्ष 2011 की जनसंख्या हैं, 15 वार्डों में विभाजित कर परिसीमन किया गया हैं वार्डों की जनसंख्या में 15 प्रतिशत की कमी या वृद्धि पर पूरा ध्यान रखा गया हैं तथा वार्डों की सीमा प्राकृतिक चिन्ह एवं राजस्व ग्राम की सीमा के आधार पर निश्चित की गई है, नियमानुसार वार्डों की चतुर्सीमा का प्रारंभिक प्रकाशन मध्यप्रदेश नगरपालिका (वार्डों की विस्तार) नगरपालिका अधिनियम, 1994 के नियम 7 के अन्तर्गत घेपर विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे, परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। जनसंख्या 2011 के अनुसार वार्ड वार एकरूपता रखते हुए वार्डों का परिसीमन किया गया :—

अनुसूची

| क्र. | वार्ड क्रमांक | वार्ड का नाम नाम            |
|------|---------------|-----------------------------|
| (1)  | (2)           | (3)                         |
| 1    | 1             | सुभाष वार्ड                 |
| 2    | 2             | महात्मा गांधी वार्ड         |
| 3    | 3             | डॉ. जाकीर हुसैन वार्ड       |
| 4    | 4             | श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड |
| 5    | 5             | जवाहरलाल नेहरू वार्ड        |
| 6    | 6             | चन्द्रशेखर आजाद वार्ड       |
| 7    | 7             | अंबेडकर वार्ड               |

| (1) | (2) | (3)                      |
|-----|-----|--------------------------|
| 8   | 8   | लालबहादुर शास्त्री वार्ड |
| 9   | 9   | संजय गांधी वार्ड         |
| 10  | 10  | सरदार भगतसिंह वार्ड      |
| 11  | 11  | राजीव गांधी वार्ड        |
| 12  | 12  | इंदिरा गांधी वार्ड       |
| 13  | 13  | राधाकृष्णा वार्ड         |
| 14  | 14  | शिवाजी वार्ड             |
| 15  | 15  | रानी लक्ष्मीबाई वार्ड    |

नगर परिषद्, बड़ौद के वार्डों की चतुर्थ सीमा का विवरण निम्नानुसार है:—

### वार्ड क्रमांक 01—सुभाष वार्ड

उत्तर—पिपलिया एवं जहांगीरपुरा की सीमा

पूर्व—डग रोड पर मोहम्मद हुसैन की दुकानों से डग-आगर रोड पर सलीम सेठ के झीन का कार्नर तक.

दक्षिण—सलीम सेठ के झीन के कार्नर से गुलाब के मकान तक.

पश्चिम—गुलाब के मकान से पश्चिमी सीमा जैन मंदिर, जमुनिया रोड, जहांगीरपुरा रोड सम्पूर्ण कॉलोनी का भाग लेते हुए, मोहम्मद हुसैन के दुकानों तक.

### वार्ड क्रमांक 02—महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर—डग-आगर रोड पर मोहन सेठ की कबाड़े की दुकान से मंत्री कालोनी में सब्जुआपा के मकान तक.

पूर्व—मोहन सेठ की कबाड़े की दुकान से सुभाष चौक होते हुए, पेट्रोल, एमपीईबी कार्यालय के सामने से होते हुए, लाहोरी के बेयर हाउस तक (डग-आगर रोड).

दक्षिण—ग्राम बिलिया की सीमा.

पश्चिम—सब्जुआपा के मकान से पिपलिया विजय से होते हुए वृन्दावन ऐकेडमी स्कूल तक.

### वार्ड क्रमांक 03—डॉ. जाकीर हुसैन वार्ड

उत्तर—खाजा टेकरी के बाद ग्राम खीमपुरा की सीमा.

पूर्व—खाजू कसाई के मकान से हेलो का ईमाम बाड़ा होते हुए प्रजापत धर्मशाला से शवजी कुम्हार के मकान तक एवं नाला क्रास कर नाले की पश्चिम बस्ति को सम्मिलित करते हुए कृषि मंडी के पिछवाड़ा खाजा की टेकरी तक.

**दक्षिण**—नाला एवं बस स्टेण्ड पुलिया के पास पारस सेठ एवं हकीम साईकल वाले की दुकान से बाबूलाल खरे के मकान से बैंक ऑफ इंडिया होते हुए खाजू कसाई के मकान तक.

**पश्चिम**—डग-आगर रोड खाजा टेकरी से आलोट रोड तिराहे पर नेमिचंद जैन मिश्राजी की दुकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 04—श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड

**उत्तर**—नाला (खाल)

**पूर्व**—गांधी चौक

**दक्षिण**—शितला माता मंदिर से बरकत अली के मकान होते हुए बुद खां के मकान से डगपुरा के आमने-समने का भाग, मठ, गुप्तेश्वर गली के आमने-समने का भाग से कृष्ण मंदिर का कानूर के सामने जैन मंदिर के कोने तक.

**पश्चिम**—झुंगर नाई के मकान से शितला माता मंदिर तक.

#### वार्ड क्रमांक 05—जबाहरलाल नेहरू वार्ड

**उत्तर**—वार्ड क्र. 04 डगपुरा की सीमा

**पूर्व**—चोपड़ा मस्जिद से डग दरवाजा होते हुए कृष्ण मंदिर रामबाबू बैरागी के मकान होते हुए सदर बाजार में सुन्दर पारस की दुकान तक.

**दक्षिण**—सुन्दर पारस की दुकान से मिल्कीपुरा लेते हुए, भावसार गली की दोनों ओर का भाग लेते हुए, फतह मस्जिद होते हुए धोबी गली आमने-सामने से सरस्वती ज्ञान मंदिर होते हुए ठाकुर बा के मकान से अनवर की चक्की तक.

**पश्चिम**—अनवर की चक्की से नंदु महाराज के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 06—चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

**उत्तर**—वार्ड क्र. 05 का भाग

**पूर्व**—सदर बाजार एहसान उल्ला की दुकान से सोहनलाल भावसार की दुकान होते हुए भैंरू महाराज के मंदिर तक एवं गली क्रास कर ललित जैन के कानूर तक (सदर बाजार की पश्चिमी पट्टी)

**दक्षिण**—बाबूखां के मकान से होते हुए अंदर कुम्हार मोहल्ला बोहरा बाखल होते हुए कैलाशजी मिश्रा के मकान तक.

**पश्चिम**—कसाई मोहल्ले के चौराहे पर रामचन्द्र कलाल के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 07—अंबेडकर वार्ड

**उत्तर**—मुनालाल नाथ के मकान से होते हुए रामद्वारा गोपाल जायसवाल के मकान का चौक से सदर बाजार के कोने के दोनों भाग.

**पूर्व**—कंकाली चौराहे वाला मार्ग

**दक्षिण**—कंकाली चौराहे के ऊपर प्रहलाद लोहार से हाटपुरा रोड पर पुरानी नगरपालिका भवन से मोदीजी की रेडियो की दुकान तथा इसके सामने प्रभुलाल तेली के मकान व मोदीजी की किराने की दुकान तक हाटपुरा के दोनों साईड की पट्टी.

**पश्चिम**—कुम्हार मोहल्ला की सीमा तक.

#### वार्ड क्रमांक 08—लालबहादुर शास्त्री वार्ड

**उत्तर**—नाला एवं हरिजन बस्ति

**पूर्व**—लालखां की गली होते हुए खटीक मोहल्ले के आमने-सामने का भाग पिंजारासेरी के आमने-सामने के दोनों भाग मुल्तानी मस्जिद के सामने होते हुए हाटपुरा के पिछवाड़े होते हुए मठ के सामने दुघालिया वाले के मकान एवं मदन नाहर के मकान तक अन्दर का समस्त भाग.

**दक्षिण**—सरस्वती शिशु मंदिर तक.

**पश्चिम**—डग-आगर रोड, सुभाष चौराह पर अमान उल्लाह के मकान से आगर रोड पर बाबा की ओड़ी तक.

#### वार्ड क्रमांक 09—संजय गांधी वार्ड

**उत्तर**—लोधापुरा का सम्पूर्ण आमने-सामने का भाग

**पूर्व**—गोदड़ मंदिर का नाला

**दक्षिण**—नाला

**पश्चिम**—अनवर लोधापुरा के सम्पूर्ण आमने-सामने का भाग इकबाल मुल्तानी के मकान तक.

#### वार्ड क्रमांक 10—सरदार भगत सिंह वार्ड

**उत्तर**—मोदीजी की बाबड़ी के पीछे नाला

**पूर्व**—मार्टण्डबाग हनुमान मंदिर होते हुए बलाईपुरा मेवातीपुरा का सम्पूर्ण भाग होते हुए डग दरवाजे तक.

**दक्षिण**—लोहे की टंकी के पास मिडिल स्कूल (पुराना हाई सेकेण्डरी स्कूल)

**पश्चिम**—डग दरवाजा.

**वार्ड क्रमांक 11—राजीव गांधी वार्ड**

उत्तर—सुसनेर रोड.

पूर्व—आगर दरवाजा नाला.

दक्षिण—जामा मस्जिद.

पश्चिम—मिडिल स्कूल (पुराना हाई सेकेण्डरी स्कूल).

**वार्ड क्रमांक 12—इंदिरा गांधी वार्ड**

उत्तर—मिडिल स्कूल (पुराना हाई सेकेण्डरी स्कूल)

पूर्व—आगर दरवाजा.

दक्षिण—अट्टा चौक.

पश्चिम—गांधी चौक एवं दुधाखेड़ी माता मंदिर मार्ग.

**वार्ड क्रमांक 13—राधाकृष्ण वार्ड**

उत्तर—जामा मस्जिद मार्ग.

पूर्व—आगर दरवाजा एवं नाला.

दक्षिण—फूटी कुंडी भाग.

पश्चिम—अट्टा चौक.

**वार्ड क्रमांक 14—शिवाजी वार्ड**

उत्तर—राम लक्ष्मण बाजार.

पूर्व—अट्टा चौक चौराहा.

दक्षिण—लाल माता मार्ग.

पश्चिम—सदर बाजार मार्ग.

**वार्ड क्रमांक 15—रानी लक्ष्मीबाई वार्ड**

उत्तर—धोबी गली

पूर्व—फूटी कुंडी नाला

दक्षिण—लाल माता मार्ग.

पश्चिम—सदर बाजार.

डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर

**कार्यालय, नगर परिषद्, सुसनेर, मध्यप्रदेश**

आगर—मालवा, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. 95-जिशविअ-2014.—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-138-अठारह-2007, भोपाल दिनांक 3 नवम्बर 2007 एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 7-3-2007-08-5947, दिनांक 30 अक्टूबर 2007 में दिये निर्देशानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 355 के अन्तर्गत बनाये गये मध्यप्रदेश नगरपालिका (वार्ड का विस्तार) नियम, 1994 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत नगर

परिषद्, सुसनेर के वार्डों का परिसीमन किया गया है, परिसीमन में शासन द्वारा निर्धारित 15 वार्ड रखे गये हैं, नगर की वर्ष 2011 की जनसंख्या है, 15 वार्डों में विभाजित कर परिसीमन किया गया है। वार्डों की जनसंख्या में 15 प्रतिशत की कमी या बढ़िया पर पूरा ध्यान रखा गया है तथा वार्डों की सीमा प्राकृतिक चिन्ह एवं राजस्व ग्राम की सीमा के आधार पर निश्चित की गई है। नियमानुसार वार्डों को चतुर्सीमा का प्रारंभिक प्रकाशन मध्यप्रदेश नगरपालिका (वार्ड का विस्तार) नगरपालिका अधिनियम, 1994 के नियम 7 के अन्तर्गत पेपर विज्ञप्ति प्रकाशित कर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे, परन्तु निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी। जनसंख्या 2011 के अनुसार वार्ड वार एकरूपता रखते हुए वार्डों का परिसीमन किया गया :—

**अनुसूची**

| क्र.<br>(1) | वार्ड क्रमांक<br>(2) | वार्ड का नाम<br>(3)        |
|-------------|----------------------|----------------------------|
| 1           | 1                    | नेताजी सुभाषचन्द्र वार्ड   |
| 2           | 2                    | डॉ. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड  |
| 3           | 3                    | लालबहादुर शास्त्री वार्ड   |
| 4           | 4                    | भगवान महावीर वार्ड         |
| 5           | 5                    | डॉ. अम्बेडकर वार्ड         |
| 6           | 6                    | राणा प्रताप वार्ड          |
| 7           | 7                    | पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड |
| 8           | 8                    | महात्मा गांधी वार्ड        |
| 9           | 9                    | मोलाना अब्दुल कलाम वार्ड   |
| 10          | 10                   | सरदार पटेल वार्ड           |
| 11          | 11                   | इंदिरा गांधी वार्ड         |
| 12          | 12                   | राजीव गांधी वार्ड          |
| 13          | 13                   | रानी लक्ष्मीबाई वार्ड      |
| 14          | 14                   | विनोबा भावे वार्ड          |
| 15          | 15                   | लोकमान्य तिलक वार्ड        |

नगर परिषद्, सुसनेर के वार्डों की चतुर्थ सीमा का विवरण निम्नानुसार है :—

**वार्ड क्रमांक 01—नेताजी सुभाषचन्द्र वार्ड**

उत्तर—पिंडवा दरवाजा रोड

पूर्व—कुम्हार गली

पश्चिम—गंगादास मंदिर

दक्षिण—गंगादास मंदिर सड़क

**सम्मिलित क्षेत्र.**—गंगादास मंदिर सड़क इस्पाईल खां, फकीर मोहम्मद के मकान से नंदूबाई बेवा मांगीलाल के मकान तक, कुम्हार गली नं. 01 मजिद खां दावल खां के मकान व धीसु कुम्हार के मकान एवं भंवर कालु सुतार के मकान को लेते हुये बालू गणपत कुम्हार के मकान तक. कुम्हार गली नं. 03 नाथू रूगनाथ के मकान से मेन रोड के मकानों को लेते हुये, किशनलाल दुलाजी के मकान तक. गंगादास मंदिर सड़क हीरालाल माली के मकान से शंकरलाल अमराजी बलाई के मकान तक एवं मोहम्मद खां करीम खां के मकान से बलाई गली को लेते हुये, पिंजारा गली में पुरुषोत्तम बैरागी के मकान से मोहल्ला मस्जिद तकाव पीर मो. चांद के मकान से शकुरखां इमानखां के मकान तक. गंगादास मंदिर का दक्षिण के रहमान खां पिता इमाम खां के मकान से लखनदास प्रभुदास बैरागी के मकान के बीच का एरिया.

#### वार्ड क्रमांक 02—डॉ. राजेन्द्रप्रसाद वार्ड

**उत्तर**—पिड़वा दरवाजा सड़क  
**पूर्व**—चबूतरे का मकान  
**पश्चिम**—माली का मंदिर  
**दक्षिण**—हनुमान मंदिर मठ

**सम्मिलित क्षेत्र.**—पिड़वा दरवाजा सड़क का पूर्वी भाग. लालसिंह देवीसिंह सोंधिया के मकान से धन्ना व बसन्ती के मकान तक कुम्हार गली नं. 01 मकान सुरेशचन्द्र जैन से नाथूलाल भेरूजी के मकान तक एवं पिड़वा दरवाजा सड़क का पूर्वी भाग. गोपीलाल भुवानजी के मकान से नेमीचंद लालचन्द के मकान तक. दीवानजी गली का पूर्वी भाग. चवरे के मंदिर से रामचन्द्रलाल शंकरलाल के मकान तक पिड़वा दरवाजा का पश्चिम भाग गोवर्धनलाल भागीरथ के मकान से तकिया तक. इतवारियां बाजार का उत्तरी भाग. हाजी सुलेमान के मकान से नंदकिशोर मांगीलाल के मकान तक. सोंधिया गली नं. 1, 2, 3 कालुजी भावसार से मोहनलाल दर्जी के मकान तक साथ ही यादव गली बालकिशन भावसार के मकान के दोनों ओर का भाग रोड क्रास कर मुन्शीजी की बाबड़ी की समस्त बसाहट अंदर लेकर हनुमान मंदिर मठ से पुलिया सड़क के बीच का एरिया.

#### वार्ड क्रमांक 03—लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

**उत्तर**—इतवारिया बाजार  
**पूर्व**—बड़ा जैन मंदिर  
**पश्चिम**—राठी का मंदिर  
**दक्षिण**—शीतला माता मंदिर

**सम्मिलित क्षेत्र.**—पूर्वी भाग पुलिया सड़क यूनुप नूर के मकान से मोहनलाल बालमुकुन्द के मकान तक एवं पुलिया कासिम बोहरा के मकान से लक्ष्मीनारायण मुनालाल के मकान तक. रंगारा गली धीसालाल ब्राह्मण के मकान से जगन्नाथ भावसार के मकान तक पुलिया सड़क मोहनलाल रामनारायण से नानालाल सुलतान लखेरा के मकान तक जैन मंदिर सड़क अलानुर शकुर खां के मकान से अल्लाफाज यसाज के मकान तक. मेहतर दरवाजा सड़क का उत्तरी भाग चिरोंजीलाल जैन की दुकान से रामचन्द्र जैन के मकान तक एवं सत्यनारायण गली के उत्तरी भाग के मकान ब्रीलाल सोनी नदी वाले के मकान से पूर्व की ओर समस्त बसाहट तथा गलिया लेते हुये बड़ा जैन मंदिर के सामने नदी वाले सोनी जी की नई दुकान के बीच का समस्त एरिया.

#### वार्ड क्रमांक 04—भगवान महावीर वार्ड

**उत्तर**—सत्यनारायण मंदिर  
**पूर्व**—सर्फा बाजार  
**पश्चिम**—कंठाल नदी  
**दक्षिण**—सुनील बांगड़ का मकान

**सम्मिलित क्षेत्र.**—सर्फा बाजार का पूर्वी भाग, सत्यनारायण गली का दक्षिणी भाग मेला मैदान संपर्क से नदी पार कर मराठा गली पोस्ट ऑफिस से विजय बांगड़ के मकान से उत्तरी दिशा में डगवाले की दुकान तक तथा दर्जी समाज श्रीराम मंदिर से परमानन्द दर्जी की दुकान तथा वहां से सर्फा बाजार का पश्चिमी भाग रावला गली दोनों ओर तथा बजाज का नेहरा वहां से सुनील बांगड़ के मकान के बीच का संपूर्ण एरिया तथा पीछे की गली का एरिया.

#### वार्ड क्रमांक 05—डॉ. अम्बेडकर वार्ड

**उत्तर**—वार्ड क्रमांक 03 की सीमा  
**पूर्व**—धोबी गली  
**पश्चिम**—चोस्टी माता मंदिर रोड  
**दक्षिण**—वार्ड क्रमांक 06 की सीमा.

**सम्मिलित क्षेत्र.**—सर्फा बाजार का पूर्वी भाग धनसिंह जी गली लेते हुये रमणकुमार लड्डा की दुकान से पूर्व की ओर मुढ़कर गली वहां से रोडक्रास कर चोस्टमाता गली मांगीलाल माली से गोकुलसिंह पान्डे के मकान से तोमर जी राजू व्यास की गली होते हुये, दुलेसिंह गुर्जर के मकान तक वहां से बांगड़ वकील सा. की बाबड़ी से शिशु मंदिर तक तथा वहां से अड्डा गली नाई गली की संपूर्ण बसाहट एवं गोशाला रोड के बीच का एरिया.

### वार्ड क्रमांक 06—राणा प्रताप वार्ड

उत्तर—वार्ड क्रमांक 05 की सीमा

पूर्व—पंडित गली

पश्चिम—महुडी दरवाजा

दक्षिण—डोली गली.

**सम्मिलित क्षेत्र.**—पंडित गली का पूर्वी एवं पश्चिम भाग की संपूर्ण बसाहट, महुडी दरवाजा रामचन्द्र शर्मा के मकान से पीछे की बसाहट लेते हुये राम मंदिर चोराहे तक वहां से रोड क्रास कर छोटा जैन मंदिर से कोमलचंद जैन के मकान से विश्वकर्मा गली चतुर्भुज हरदेवियां के मकान तक वहां से बालचंद विश्वकर्मा के मकान से राजमल खूपवाला के मकान तक तथा नदी पार कर खेड़ा तथा संपूर्ण एवं ढोली गली.

### वार्ड क्रमांक 07—पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड

उत्तर—वार्ड क्रमांक 08 की सीमा

पूर्व—सांई तिराहा

पश्चिम—छोटा जैन मंदिर

दक्षिण—कंठाल नदी

**सम्मिलित क्षेत्र.**—कंठाल नदी के किनारे जमात खाने से प्रारंभ होकर भारतीय स्टेट बैंक तक वहां से पूर्व की ओर मुढ़कर पुराना थाना अस्पताल परिसर पाचपुल होते हुये बालक मा. विद्यालय तक वहां से नये बस स्टेण्ड के पीछे बसाहट एवं गाड़ुलिया लोहार की बस्ती एम. ई. एस. स्कूल की कालोनी सेठी काजी के मकान तक तथा खटला गली खिड़की दरवाजा के बीच की संपूर्ण बसाहट.

### वार्ड क्रमांक 08—महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर—हनुमान छतरी

पूर्व—पांच पुल

पश्चिम—श्रीराम मंदिर

दक्षिण—वार्ड क्रमांक 7 की सीमा

**सम्मिलित क्षेत्र.**—शुक्रवारियां बाजार का पश्चिमी भाग माहेश्वरी की नवीन दुकान से श्रीराम मंदिर चोराहे तक एवं राजेन्द्र जैन गुड़ा के मकान से राजमल खूपवाले की दुकान वहां से पूर्व की ओर मुढ़कर फेन्सी के मकान तक वहां से भामबी गली की बसाहट श्रीराम धर्मशाला मंदिर गली के उत्तर दिशा में रतनसिंह परमार वाली गली एवं विनोद टेलर के मकान से उपाध्याय का मकान रोड क्रास कर जामा मस्जिद नवीन सब्जी मंडी का एरिया सम्मिलित करते हुये जगदीश सोनी के मकान वहां राणा हाउस पांच पुल में राठोर के मकान तक के बीच की सम्पूर्ण बसाहट.

### वार्ड क्रमांक 09—मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वार्ड

उत्तर—वार्ड क्रमांक 15 की सीमा

पूर्व—वार्ड क्रमांक 10 की सीमा

पश्चिम—नरबदिया नाला

दक्षिण—डाक बंगला सड़क

**सम्मिलित क्षेत्र.**—हरिजन मोहल्ला, खटीक गली, मालीपुरा पूर्व दिशा में सुब्बा की आरामशीन से देवनारायण मंदिर तक पश्चिम दिशा में सिद्धलाल रोडमल कुम्हार के मकान से डी. पी. के पास गायरी के मकान तक. पूर्व की ओर सरदारसिंह खेजड़ी के मकान से पांच स्कूल कान्वेट स्कूल सांई मंदिर के पास की बसाहट तथा रमेश माली के मकान तक के बीच का एरिया पीछे की ओर हाजी रजाक भाई एवं इरशाद भाई के मकान तक.

### वार्ड क्रमांक 10—सरदार पटेल वार्ड

उत्तर—मेना रोड

पूर्व—इन्दौर कोटा रोड

पश्चिम—सांई मंदिर

दक्षिण—डाक बंगला सड़क

**सम्मिलित क्षेत्र.**—उत्तर दिशा से प्रारंभ होकर मोहन मुश्ती के मकान से एम. एम. खान का मकान अंदर लेते हुये पूर्व की ओर बसाहट दिलीप सिंह राणा के मकान से सिंचाई विभाग कालोनी, हैला वाड़ी से नगर परिषद् की दुकान अंदर लेते हुये उत्तर की ओर मुढ़कर नन्हे खां के मकान से मैनारोड के दक्षिणी भाग को अंदर लेते हुये बाढ़ग्रस्त कालोनी कुम्हार गली नगर मैनारोड का दक्षिणी भाग की संपूर्ण तथा रिहानाबाई हमीद पठान के मकान के बीच का संपूर्ण एरिया.

### वार्ड क्रमांक 11—इंदिरा गांधी वार्ड

उत्तर—सोयत रोड

पूर्व—इन्दौर कोटा रोड

पश्चिम—मैना रोड

दक्षिण—वार्ड क्रमांक 10 की सीमा

**सम्मिलित क्षेत्र.**—सोयत रोड से प्रारंभ होकर रमेश दादा भाई के मकान तक तथा वहां से पश्चिम की ओर मुढ़कर मैनारोड के उत्तरी भाग की संपूर्ण गलियां एवं बसाहट तथा मटन मार्केट तक का एरिया.

**वार्ड क्रमांक 12—राजीव गांधी वार्ड**

**उत्तर**—मोड़ी सोयत तिराहा  
**पूर्व**—परसुलियां रोड  
**पश्चिम**—वार्ड 13 व 7 की सीमा  
**दक्षिण**—आगर रोड

**सम्मिलित क्षेत्र**—मोड़ी सोयत तिराहे की संपूर्ण बसाहट अंदर लेते हुये दक्षिण दिशा की ओर पुलिस कालोनी एम. पी. ई. बी. कॉलोनी परसुलियां रोड की बसाहट से डाक बंगला से पुष्पक कॉलोनी जामुनिया रोड की बसाहट अंदर लेते हुये आगर रोड पर नवीन पेट्रोल पंप तक तथा रोड क्रास कर भारत गैस गोडाउन से जगताप का मकान मण्डी कमेटी तथा वहां से कृषि विभाग कॉलेज उप जेल तहसील कार्यालय पानी की टंकी की बसाहट तथा बीच का एरियां.

**वार्ड क्रमांक 13—रानी लक्ष्मीबाई वार्ड**

**उत्तर**—डाक बंगला सड़क  
**पूर्व**—इन्दौर कोटा रोड  
**पश्चिम**—साई तिराहा बस स्टेण्ड  
**दक्षिण**—तहसील से कृषि उपज मण्डी रोड

**सम्मिलित क्षेत्र**—नगर परिषद् की डाक बंगले के सामने की दुकानों से प्रारंभ होकर भूपेन्द्रसिंह वकील सा. का मकान वहां से इसी रोड पर नगर परिषद् कार्यालय से एस. डी. एम. का निवास तथा दक्षिण की ओर मुढ़कर जज साहब का निवास वहां से पूर्व की ओर मुढ़कर कन्या आश्रम तथा महावीर जैन सालरियां के मकान से उत्तर की ओर मुढ़कर इन्दौर कोटा रोड के मकान शशिराव के मकान तथा छोटाजीन, बड़ाजीन के अंदर की सम्पूर्ण बसाहट.

**वार्ड क्रमांक 14—विनोबा भावे वार्ड**

**उत्तर**—इतवारियां बाजार  
**पूर्व**—गंगादास मंदिर सड़क  
**पश्चिम**—नरबदियां नाला  
**दक्षिण**—मुसलमान गली

**सम्मिलित क्षेत्र**—दीवान जी गली में रामप्रसाद, रामलाल के मकान से हरीनारायण के मकान तक बृद्धावन महाराज की गली मिश्रीलाल, जीवनलाल के मकान से पार्वतीबाई मोतीलाल के मकान तक इतवारियां सड़क शंकरलाल के मकान से गनी मोहम्मद के मकान तक. मुसलमान गली रफी गफूर खां के मकान से हकीम नूर के मकान तक. नरबदियां नाला मोहनलाल बालमुकुन्द के मकान से मोहम्मद रफीक, अ गफूर के मकान तक के बीच का संपूर्ण एरिया.

**वार्ड क्रमांक 15—लोकमान्य तिलक वार्ड**

**उत्तर**—पिंजारा गली  
**पूर्व**—वार्ड क्रमांक 09 की सीमा  
**पश्चिम**—वार्ड 4 व 5 की सीमा  
**दक्षिण**—वार्ड क्रमांक 8 की सीमा

**सम्मिलित क्षेत्र**—तकिया गली क्रमांक 1 व 2 की बसाहट मालीपुरा के मोहन महाराज के मकान से देवमहाराज मंदिर तक की बसाहट तकिया गली के मकान वारिस मो. फकीर मोहम्मद के मकान से शेरबानों पति युनूस खां पत्रकार के मकान तक रोड क्रासकर गिरदावर गली काजी मोहल्ला की बसाहट तथा मेहतर गली के पूर्व दिशा में परथीसिंह सोंधिया के मकान तक की बसाहट तथा संपूर्ण एरिया.

डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर